

# CBSE Class 10 Hindi A Answer Key 2022

(May 18, Set 2 - 3/1/2)

अत्यंत गोपनीय: केवल आंतरिक और सीमित प्रयोग हेतु

सेकेंडरी स्कूल टर्म II परीक्षा 2022

अंक-योजना / हिंदी (A), कोड- 002

कक्षा- 10 वीं प्रश्न पत्र 3/1/2

## सामान्य निर्देश:

1. आप जानते हैं कि परीक्षार्थियों के सही और उचित आकलन के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मूल्यांकन में एक छोटी सी भूल भी गंभीर समस्या को जन्म दे सकती है जो परीक्षार्थियों के लिए भविष्य, शिक्षा-प्रणाली और अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। इससे बचने के लिए अनुरोध किया जाता है कि मूल्यांकन प्रारंभ करने से पूर्व ही आप मूल्यांकन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लें।
2. मूल्यांकन एक गोपनीय नीति है। आयोजित परीक्षाओं की गोपनीयता, किए गए मूल्यांकन और कई अन्य पहलुओं से संबंधित होने की वजह से मूल्यांकन की गोपनीयता अनिवार्य है। सार्वजनिक रूप से किसी भी तरह इसके लीक होने पर परीक्षा-प्रणाली पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है जो लाखों उम्मीदवारों के जीवन और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस नीति/दस्तावेज को किसी से भी साझा करना, किसी पत्रिका में प्रकाशित करना और समाचार पत्र/वेबसाइट आदि में छापना आईपीसी (IPC) के तहत कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।
3. मूल्यांकन अंक-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अपनी व्यक्तिगत व्याख्या या किसी अन्य धारणा के अनुसार नहीं। यह अनिवार्य है कि अंक-योजना का अनुपालन समग्रता पूर्वक और निष्ठापूर्वक किया जाए। हालांकि मूल्यांकन करते समय नवीनतम सूचना और ज्ञान पर आधारित और नवाचार पर आधारित उत्तरों को उनकी सत्यता और उपयुक्तता को परखते हुए पूरे अंक दिए जाएँ। कक्षा दसवीं के प्रश्न पत्र में दिए गए दक्षता आधारित (**competency based**) प्रश्नों के मूल्यांकन करने में कृपया विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर को समझने का प्रयास करें; उनके उत्तर चाहे अंक योजना में दिए गए उत्तर से मेल न खाते हों तब भी सही दक्षताओं की परिगणना की गई हो तो अंक दिए जाने चाहिए।
4. मुख्य परीक्षक प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता के द्वारा पहले दिन जाँची गई पाँच उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जाँच ध्यानपूर्वक करें और आश्वस्त हों कि मूल्यांकन-योजना में दिए गए निर्देशों के अनुसार ही मूल्यांकन किया जा रहा है। परीक्षकों को बाकी उत्तर पुस्तिकाएँ तभी दी जाएँ जब आप आश्वस्त हो, कि उनके अंकन में कोई भिन्नता नहीं है।



5. परीक्षक सही उत्तर पर सही का निशान (✓) लगाएँ और गलत उत्तर के लिए गलत का (x)। मूल्यांकन करता द्वारा ऐसा चिह्न न लगाने से ऐसा समझ में आता है कि उत्तर सही है परंतु उस पर अंक नहीं दिए गए। परीक्षकों द्वारा यह भूल सर्वाधिक की जाती है।
6. यदि किसी प्रश्न के उपभाग भी हों तो कृपया प्रश्नों के उपभागों के उत्तरों पर बाईं ओर अंक दिए जाएँ। बाद में उपभागों के इन अंकों का योग बाईं ओर के हाशिये में लिखकर उसे गोलाकृत कर दिया जाए। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाए।
7. यदि किसी प्रश्न के कोई उपभाग न हो तो बाईं ओर के हाशिये में अंक दिए जाएँ और उन्हें गोलाकृत किया जाए। इसके अनुपालन में भी दृढ़ता बरती जाए।
8. यदि परीक्षार्थी ने किसी प्रश्न का उत्तर दो स्थानों पर भी लिख दिया है और किसी को काटा नहीं है तो जिस उत्तर पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों, उस पर अंक दें और दूसरे को काट दें। यदि परीक्षार्थी ने अतिरिक्त प्रश्न/प्रश्नों का उत्तर दे दिया है तो जिन उत्तरों पर अधिक अंक प्राप्त हो रहे हों उन्हें ही स्वीकार करें/ उन्हीं पर अंक दें।
9. एक ही प्रकार की अशुद्धि बार-बार हो तो उसे अनदेखा करें और उस पर अंक न काटे जाएँ।
10. यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि मूल्यांकन में संपूर्ण अंक पैमाने 0-40 (उदाहरण 0-40 अंक जैसा कि प्रश्न पत्र में दिया गया है) का प्रयोग अभीष्ट है अर्थात् परीक्षार्थी ने यदि सभी अपेक्षित उत्तर-बिंदुओं का उल्लेख किया है तो उसे पूरे 40 अंक देने में संकोच न करें।
11. प्रत्येक परीक्षक को पूर्ण कार्य-अवधि में अर्थात् 8 घंटे प्रतिदिन अनिवार्य रूप से मूल्यांकन कार्य करना है और प्रतिदिन मुख्य विषयों की 30 उत्तर पुस्तिकाएँ तथा अन्य विषयों की 35 उत्तर पुस्तिकाएँ जाँचनी हैं। ( विस्तृत विवरण 'स्पॉट गाइडलाइन' में दिया गया है)
12. यह सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियाँ न करें जो पिछले वर्षों में की जाती रही हैं –
  - उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को जाँचे बिना छोड़ देना।
  - उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक देना।
  - उत्तर के लिए दिए गए अंकों का योग ठीक न होना।
  - उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अंतरण न होना।
  - आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि
  - योग करने में अंकों और शब्द में अंतर होना।
  - उत्तर पुस्तिकाओं से ऑनलाइन अंकसूची में सही अंतरण न होना।
  - कुल अंकों के योग में अशुद्धि



- उत्तरों पर सही का चिह्न (✓) करना किंतु अंक न देना। (सुनिश्चित करें कि ( ✓ ) या ( x ) का उपयुक्त निशान ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो। यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो)
  - उत्तर का एक भाग सही और दूसरा गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों।
13. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हुए यदि कोई उत्तर पूर्ण रूप से गलत हो तो उस पर (x) निशान लगाएँ और शून्य (0) अंक दें।
14. उत्तर पुस्तिका पर किसी प्रश्न का बिना जाँचे हुए छूट जाना या योग में किसी भूल का पता लगना मूल्यांकन कार्य में लगे सभी लोगों की छवि को और माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है।
15. सभी परीक्षक वास्तविक मूल्यांकन कार्य से पहले 'स्पॉट इवैल्यूएशन' के निर्देशों से सुपरिचित हो जाएँ।
16. प्रत्येक परीक्षक सुनिश्चित करें कि सभी उत्तरों का मूल्यांकन हुआ है, आवरण पृष्ठ पर तथा योग में कोई अशुद्धि नहीं रह गई है तथा कुल योग को शब्दों और अंकों में लिखा गया है।
17. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत परीक्षार्थियों के अनुरोध पर निर्धारित शुल्क भुगतान के बाद उन्हें उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कॉपी प्राप्त करने की अनुमति देती है।







अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
		प्राकृतिक और स्वास्थ्यकर होती थीं। <ul style="list-style-type: none"><li>शारीरिक-मानसिक विकास में उपयोगी थे।</li><li>जीवन की सहज व्यावहारिक शिक्षा देने वाले थे।</li></ul> (अन्य उपयुक्त बिंदु भी स्वीकार्य) (कोई तीन बिंदु अपेक्षित)	1+1+1=3
(ख)	प्रश्न - 'जॉर्ज पंचम की नाक' पाठ के आधार पर 'नाक' शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए बताइए कि जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाई जाने वाली नाक के समाधान ही मूर्तिकार की परेशानी के कारण कैसे बन गए। उत्तर - <u>नाक की प्रतीकात्मकता -</u> <ul style="list-style-type: none"><li>प्रतिष्ठा का प्रतीक</li></ul> (अनेक मुहावरों में इसी अर्थ में प्रयुक्त); <u>मूर्तिकार द्वारा दिए गए समाधान और उनसे उत्पन्न होने वाली परेशानी -</u> <ul style="list-style-type: none"><li>मूर्ति के पत्थर की जानकारी माँगी परंतु फ़ाइलें नहीं मिलीं।</li><li>पूरे देश के पहाड़ों का भ्रमण कर पत्थर ढूँढ़ना पड़ा, परंतु समान पत्थर नहीं मिला।</li><li>देश के स्वतंत्रता सेनानियों और बाल शहीदों की मूर्तियों की नाक की भी नापतौल की परंतु वे भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकलीं।</li><li>जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया।</li><li>आर्थिक हानि का भय</li></ul> (कोई दो बिंदु अपेक्षित)	1+2=3	
(ग)	प्रश्न - 'साना-साना हाथ जोड़ि .....	प्रश्न - 'साना-साना हाथ जोड़ि .....	





अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
3	(ख)	<p>प्रश्न - 'अट नहीं रही है' कविता के आधार पर लिखिए कि 'फागुन' का व्यक्ति के मन-मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है?</p> <p>उत्तर -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• फागुन का सौंदर्य बहुत आकर्षक लगता है।</li><li>• दृष्टि बँध जाती है, चाहकर भी नज़रें हटा नहीं पाता, उसका मन नहीं भरता।</li><li>• प्राकृतिक सौंदर्य को मन में समा लेना चाहता है।</li><li>• मन, आनंद और प्रफुल्लता से भर जाता है।</li><li>• मन कल्पनाओं में खोकर उड़ान भरने लगता है।</li></ul> <p>(कोई दो बिंदु अपेक्षित)</p>	1+1=2
	(ग)	<p>प्रश्न - 'कन्यादान' कविता में 'लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई न देने' की बात क्यों कही गई है?</p> <p>उत्तर -</p> <p><u>यह समझाने के लिए कि -</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• स्त्री-सुलभ गुणों जैसे - संवेदनशीलता, स्नेह, करुणा, कोमलता आदि से परिपूर्ण हो परंतु उन्हें अपनी कमजोरी न बनने दे।</li><li>• समाज इन स्त्री-सुलभ गुणों को उसकी कमजोरी मानता है।</li><li>• उसे ऐसी स्थिति के प्रति सचेत और दृढ़ रहना चाहिए।</li></ul>	1+1=2
	(घ)	<p>प्रश्न - 'कन्यादान' कविता में आई पंक्ति 'लड़की अभी सयानी नहीं थी' का आशय स्पष्ट कीजिए।</p> <p>उत्तर -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• लड़की अपरिपक्व, भोली-भाली और मासूम थी।</li><li>• वह जीवन के कठोर यथार्थ, समाज की कठिनाइयों से अपरिचित थी।</li><li>• माँ के आश्रय में जीवन के सुख से परिचित किंतु दुख से अपरिचित</li></ul>	



अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
		थी। (कोई दो बिंदु अपेक्षित)	1+1=2
		<b>खंड 'ख'</b> (रचनात्मक लेखन)	
4	(i)(क)	हस्तनिर्मित वस्तुओं का निर्माण करने वाले शिल्पकारों की संस्था 'कलाकौशल' के प्रचार-प्रसार के लिए एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। अथवा (ख) सोलर बल्ब और लाइट बनाने वाली कंपनी 'रोशनी' के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।	
	(ii)(क)	अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा (ख) 'ललित कला केन्द्र' कथक और भरतनाट्यम नृत्य कला का प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहा है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए।	
		<b>उत्तर -</b> <u>विज्ञापन-लेखन</u> • रचनात्मकता + प्रस्तुति = 1 अंक • विषयवस्तु = 1 अंक • भाषा शुद्धता = 1/2 अंक = 2 1/2 अंक	2 1/2 + 2 1/2 = 5

अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
5	(i)(क) (ख) (ii)(क) (ख)	<p>विशेष निर्देश :-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• विज्ञापन लेखन में रंगों और चित्रों का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। इसके लिए अंक न काटे जाएँ।</li><li>• भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम आधा अंक काटा जा सकता है।</li><li>• सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ।</li></ul> <p>संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा में चयन हो जाने पर बड़ी बहन को लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। अथवा</p> <p>आपके बड़े भाई का चयन विद्यालय की फुटबॉल टीम में कप्तान के रूप में हो गया है। उसके लिए लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए।</p> <p>राजस्थान निवासी अपने मित्र को 'गणगौर' पर्व के अवसर पर लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश लिखिए। अथवा</p> <p>'शिक्षक दिवस' के सफल आयोजन के लिए विद्यालय के छात्रों को प्राचार्य की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक साधुवाद बधाई संदेश लिखिए।</p> <p>उत्तर - <u>संदेश-लेखन</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• प्रारूप = ½ अंक</li><li>• विषयवस्तु = 1½ अंक</li><li>• भाषा शुद्धता = ½ अंक = 2½ अंक</li></ul>	2½+2½=5



अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
6	6	<p>विशेष निर्देश -</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• संदेश लेखन का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है फिर भी प्रश्नानुकूल उपयुक्त प्रारूप को आवश्यक माना जाए।</li><li>• एक सामान्य प्रारूप के भीतर लेखन को ही संदेश माना जाए।</li><li>• प्रस्तुतीकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ।</li><li>• भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम आधा अंक काटा जा सकता है।</li><li>• सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ।</li></ul> <p>प्रश्न - निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए :</p> <p>(क) <b>आत्मनिर्भर भारत</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• आत्मनिर्भरता आवश्यक क्यों?</li><li>• अभियान का प्रभाव</li><li>• बाधाएँ और सुझाव</li></ul> <p>(ख) <b>ऑनलाइन खरीदारी : व्यापार का बदलता स्वरूप</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• वर्तमान में इसकी अनिवार्यता</li><li>• सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव</li><li>• सुझाव</li></ul> <p>(ग) <b>जैविक (ऑर्गेनिक) खेती : एक कदम प्रकृति की ओर</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• समय का माँग</li></ul>	

अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
7	(क)  (ख)	<ul style="list-style-type: none"><li>सकारात्मक प्रभाव</li><li>कठिनाइयाँ, सुझाव</li></ul> <p>उत्तर -</p> <p><u>अनुच्छेद-लेखन</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>भूमिका + निष्कर्ष = 1 अंक</li><li>विषयवस्तु = 3 अंक</li><li>भाषा शुद्धता = 1 अंक</li></ul> <p><u>विशेष निर्देश :-</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>दिए गए संकेत बिंदुओं को शामिल करते हुए यथोचित विषय-वस्तु लेखन, स्तरीय और रचनात्मक भाषा प्रयोग पर पूरे अंक दिए जाएँ।</li><li>भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम एक अंक काटा जा सकता है।</li><li>सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ।</li><li>प्रस्तुतीकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ।</li></ul> <p>मित्रों की ग़लत संगति के प्रभाव से आपके छोटे भाई को झूठ बोलने और दिखावा करने की आदत पड़ गई है। जीवन में सत्य, सरलता और सादगी का महत्व बताते हुए तथा मित्रों की बुरी संगति से दूर रहने की सलाह देते हुए लगभग 120 शब्दों में उसे पत्र लिखिए।</p> <p>अथवा</p> <p>आपके गाँव में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। गाँव में विद्यालय खोले जाने का अनुरोध करते हुए राज्य शिक्षा मंत्री को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए।</p>	5



अंक-योजना मार्च, 2022

प्रश्न पत्र 3/1/2

विषय : हिंदी (पाठ्यक्रम 'अ')

कक्षा - दसवीं

प्रश्न	प्रश्न अनुभाग	उत्तर-संकेत / मूल्य बिंदु	अंक और अंक - विभाजन
--------	---------------	---------------------------	---------------------

		<p><b>उत्तर -</b> <b>पत्र-लेखन</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• प्रारूप (आरंभ और अंत की औपचारिकताएँ) = 1 अंक</li><li>• विषयवस्तु = 3 अंक</li><li>• भाषा शुद्धता = 1 अंक</li></ul> <p><b>विशेष निर्देश :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• उपयुक्त प्रारूप होने पर ही पत्र माना जाए और अंक दिए जाएँ।</li><li>• प्रारूप और आरंभ-अंत की औपचारिकताओं में किसी तरह का रूढ़ बंधन तय नहीं किया जाए। (दाएँ-बाएँ, सेवा में आदि पर अतिरिक्त ध्यान न दिया जाए)</li><li>• प्रस्तुतीकरण प्रभावी और उपयुक्त होने पर शब्द-सीमा के उल्लंघन पर अंक न काटे जाएँ।</li><li>• भाषा में बहुत अधिक अशुद्धियाँ होने पर ही अधिकतम एक अंक काटा जा सकता है।</li><li>• सामान्य अशुद्धियों पर अंक न काटे जाएँ।</li></ul>	5
--	--	---	---